

ईश्वरीय खजाना टीम *Presents*

DAILY THOUGHTS

श्रेष्ठ विचारों का अनमोल खजाना

यह श्रेष्ठ विचार
जीवन का सार हैं
परमात्म शीमत जिसका
मजबूत आधार है...
जिसने भी इनको हैं
अपनाया,
समझो उसका बेड़ा
भव सागर से पार है...



SEPTEMBER - 2

ईश्वर से बुद्धि की लगन लगाना ही
ईश्वर का सहारा लेना है।

Brahma Kumaris



SEPTEMBER - 2

Success springs from calmness of the
mind. It is cold iron which
cuts and bends hot iron.

Brahma Kumaris

DAY 245

VALUE: HAPPINESS

"The nourishment of happiness keeps one healthy."

CONTEMPLATION

To be truly happy means not relying on external stimuli for happiness, but discovering the joy within. Someone who is in touch with the happiness within them is able to express it in all areas of their life. Happiness leads to healthiness – when we are happy, we are also free from illnesses affecting the body.

APPLICATION

I am able to enjoy the beauty of everything when I maintain my own inner state of happiness. My mind, body and relationships are healthy because of this state of mind. I am able to enjoy everything I do too and experience constant progress.

आज का मीठा मोती

जो बुद्धिमान होता है वह उतनी ही बातें कहता है

जितनी आवश्यक होती है अतः

कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो

ब्रह्माकुमारीज माउंट आबू राजस्थान ॐ शांति...

आज का मीठा मोती

जिस प्रकार तीन घंटे में एक फिल्म पूरी हो जाती है,

उसी प्रकार दुनिया रूपी फिल्म 5000 साल में पूरी होती है,

जिसकी पुनः पुनरावृत्ति होती रहती है

ब्रह्माकुमारीज-माउंट आबू राजस्थान.



ॐ शांति..

आज का मीठा मोती

सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति

सदा तनाव मुक्त रहकर

प्रसन्नचित रहता है ।

आज का मीठा मोती



अगर जीवन में मुसीबते बढ़ रही हो तो थोड़ी देर
रुक के अपने ऊपर जरूर ध्यान दे, हो सकता है कुछ
कमी हममे ही हो.

ब्रह्माकुमारीज माउंट आबू राजस्थान ॐ शांति...



Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org